

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय-हिंदी

कक्षा- छठी

Assignment अप्रैल-2021-22

प्रश्न-1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

जीवनरूपी संग्राम में विजय-प्राप्ति हेतु शक्ति-सपन्न होना अनिवार्य है और वह शक्ति है मित्र। प्रत्येक जानकार मित्र नहीं हो सकता। मित्र वह है जिसके सामने हम निस्संकोच रूप से रहस्योद्घाटन कर सकें। वह विश्वसनीय हो और हमारी समस्याओं को ज्ञात करके उनका समाधान ढूँढने के लिए अधीर हो जाए। उसकी अनुपस्थिति हमें असह्य हो। वह हमारे सुख-दुःख का समभागी हो और भाई की भाँति सहायक हों। वह हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर चलाने के लिए आतुर हो। वह हमारे दुर्गुणों की ओर ध्यान न देकर उन्हें दूर करने का यत्न करे। वह हमारी दुर्बलताओं और न्यूनताओं को अपने सहयोग से पूर्ण करने के लिए सर्वदा यत्नशील हो।

- (क) मित्र को किसका प्रतीक माना गया है ?
- (ख) एक सच्चा मित्र किस प्रकार सहायक होता है ?
- (ग) उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखें।
- (घ) गद्यांश में दिए गए रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएँ।
(वाक्य गद्यांश में न दिए गए हों।)

प्रश्न-2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- क) हमें चिड़िया के स्वभाव की किन्-किन् बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ?
- ख) 'चिड़िया एकांतप्रिय है।' यह किस बात से पता चलता है ?
- ग) दोनों भाई बहन ने क्या नादानी की ?
- घ) श्यामा ने केशव की शिकायत माँ से क्यों नहीं की ?
- ङ) लेखिका के बचपन की कोई दो विशेषताएँ लिखें।
- च) लेखिका किसकी बात पर चिढ़ जाती थी एवं क्यों ?

प्रश्न-3 निम्न भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए।

- क) स्पैनिश
- ख) अरबी

प्रश्न-4 खाली स्थान भरिए।

- क) व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा काज्ञान करवाता है।

ख) भारतीय संविधान के अनुसार भारत मेंभाषाओं को मान्यता प्राप्त है ।

प्रश्न-5 निम्न शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए।

क) बावर्ची ख) व्यायाम

प्रश्न-6 निम्न शब्दों के दो - दो पर्यायवाची शब्द लिखिए।

क) मनुष्य ख) पशु

प्रश्न-7 निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।

क) संपन्न ख) शुभ

प्रश्न-8 'नई शिक्षा नीति' विषय पर 80-100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए ।

